

समय: तीन घण्टे 15 मिनट

पूर्णांक: 70

नोट: प्रारम्भ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है।

निर्देश: i) सभी प्रश्न करना अनिवार्य है।

- ii) प्रश्नोत्तरों की संख्या प्रश्न पत्र की संख्या के अनुसार ही लिखिए।
- iii) कार्ट्रिज पेपर (cartridge paper) के दोनों पृष्ठों का प्रयोग कीजिए।
- iv) प्रश्न संख्या 23 तथा 24 के उत्तर कार्ट्रिज पेपर (cartridge paper) पर दीजिए।

(बहुविकल्पीय प्रश्न)

नोट: प्रत्येक प्रश्न का एक उत्तर सही है। सही उत्तर छाँट कर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए:

- | | |
|--|---|
| 1. आयल स्टोन स्लिप्स का प्रयोग किया जाता है- | 1 |
| क) उज्जक तेज करने में ख) पेचकस तेज करने में | |
| ग) साधारण रूखानी तेज करने में घ) आरी तेज करने में | |
| 2. एक तख्ते की लम्बाई 5 मीटर, चौड़ाई 50 सेमी तथा मोटाई 5 सेमी है। तख्ते का घनफल क्या होगा? | 1 |
| क) 2 घनमीटर ख) 0.14 घनमीटर | |
| ग) 0.125 घनमीटर घ) 5 घनमीटर | |
| 3. तिरछे अक्षरों की चारों रेखाओं के बीच कितना अनुपात रखना उपयुक्त है? | 1 |
| क) 1:1:1 ख) 2:3:2 | |
| ग) 2:4:2 घ) 1:3:1 | |
| 4. चित्रपट की नाप क्या है? | 1 |
| क) 40x30x2 सेमी ख) 50x45x4 सेमी | |
| ग) 70x50x6 सेमी घ) 57.5x40x5 सेमी | |

5. बेन्च स्टापर किस वस्तु में लगा रहता है?	1
क) कार्य करने की मेज में ख) स्टूल में	
ग) डावेल प्लेट में घ) इनमें से कोई नहीं	
(अति लघु उत्तरीय प्रश्न)	
6. बेन्च हुक का प्रयोग लिखिए।	2
7. पेंच के दो भागों के नाम लिखिए।	1+1
8. लकड़ियाँ कितने प्रकार की होती हैं? उनके नाम लिखिए।	2
9. लकड़ी के रनिंगफल निकालने का सूत्र लिखिए।	2
10. किन्हीं दो जोड़ों के नाम लिखिए।	1+1
11. किसी वस्तु के ऊपर का दृश्य (प्लान) कहाँ पर बनाया जाता है?	2
12. मोम का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है?	2
13. सान लगाने की पहिया पर यंत्रों के फलों का कौन सा भाग तैयार किया जाता है?	2
14. गीली लकड़ी के प्रयोग से होने वाले दो हानियों को लिखिए।	1+1
15. साधारण मेज बनाने किस जोड़ का प्रयोग किया जाता है?	2
(लघु उत्तरीय प्रश्न)	
16. कृत्रिम सिल्ली का संक्षेप में वर्णन कीजिए।	4
17. कार्लगेटेड क्लैम्प का संक्षेप में वर्णन कीजिए।	4
18. इमली की लकड़ी का संक्षेप में वर्णन कीजिए।	4
19. बैण्ड सा मशीन का कार्य बताइए।	4
20. लकड़ी के प्रकृति के आधार प्लाईवुड कितने प्रकार की होती है? संक्षेप में लिखिए।	4
21. गोल सेन्टर टेबुल की मानक माप लिखिए।	4

(विस्तृत उत्तरीय प्रश्न)

22. एक सिल्ली की लम्बाई 10 मीटर, चौड़ाई 2 मीटर तथा मोटाई 10 सेमी है। सिल्ली का घनफल ज्ञात कीजिए तथा 900 रूपये प्रति घनमीटर की दर से उसका मूल्य निकालिए। 4+3
अथवा

निम्नलिखित में से किन्हीं दो सामग्रियों की मानक माप लिखिए: $3\frac{1}{2} + 3\frac{1}{2}$

क) खाना रखने की आलमारी

ख) ऑफिस बाक्स

ग) सादी मेज

23. निम्नलिखित में से किसी एक का रूढ़ सममापीय प्रक्षेप चित्र बनाइए। माप एवं मापनी स्वयं निर्धारित करके लिखिए: 5+2

क) दीवाल गीर ख) चित्रपट

ग) टी हाफ लैप्टॉप डब्लेट जोड़

अथवा

निम्नलिखित में से किसी एक का मुक्त हस्त रेखाचित्र बनाइए तथा पेन्सिल शेड देकर रचना स्पष्ट कीजिए: 5+2

क) जम्बूर ख) सुरक्षित इमलिया कुण्डा

ग) टी स्कवायर

24. अंग्रेजी के बड़े छापे वाले अक्षरों में "PLANE" शब्द को 0.4 सेमी वर्गाकार ग्राफ विधि से लिखिए। 2+5

अथवा

10 मिमी0 की ऊँचाई में हिन्दी अथवा अंग्रेजी की तिरछी छपाई वाले अक्षरों में निम्नलिखित वाक्य लिखिए: 7

"कला आत्मा की अभिव्यक्ति है"

अथवा

"Art is the expression of self."

अथवा

निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर टिप्पणी लिखिए: $3\frac{1}{2} + 3\frac{1}{2}$

क) शीशम का जल स्टेन बनाना

ख) स्टेनिंग

ग) पेन्ट की आवश्यकता